



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 अग्रहायण 1946 (श10)

(सं0 पटना 1132) पटना, वृहस्पतिवार, 28 नवम्बर 2024

सं०सं० एम-4-05/2022-12640/वि०  
वित्त विभाग

संकल्प

26 नवम्बर 2024

**विषय :-स्कीम स्क्रीनिंग समिति का कार्यकाल विस्तारित करने के संबंध में।**

राज्य में क्रियान्वयन हेतु प्रस्तावित नई स्कीमों की समीक्षा हेतु वित्त विभागीय संकल्प सं०-9391 दिनांक 25.11.2019 द्वारा विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में स्कीम स्क्रीनिंग समिति गठित है, जिसका स्वरूप निम्नवत है :-

- |  |              |
|--|--------------|
| (i) विकास आयुक्त   | — अध्यक्ष    |
| (ii) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग            | — सदस्य      |
| (iii) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग | — सदस्य सचिव |
| (iv) संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव        | — सदस्य      |

2. 25.11.2019 के पश्चात स्कीम स्क्रीनिंग समिति की कार्य अवधि का विस्तार किया जाता रहा है। वर्तमान में विभागीय संकल्प संख्या-3168 दिनांक-03.04.2023 द्वारा स्कीम स्क्रीनिंग समिति का कार्यकाल दिनांक-31.03.2024 तक के लिए विस्तारित किया गया था।

3. वर्तमान परिपेक्ष्य में स्कीमों की स्वीकृति के पूर्व उसकी समीक्षा की आवश्यकता के आलोक में सम्यक विचारोपरांत स्कीम स्क्रीनिंग समिति का कार्यकाल तत्काल प्रभाव से दिनांक-31.03.2025 तक के लिए विस्तारित किया जाता है। इस क्रम में स्कीम स्क्रीनिंग समिति का स्वरूप यथावत रहेगा।

4. उक्त स्कीम स्क्रीनिंग समिति के तहत चालू स्कीम (Ongoing Scheme) के साथ-साथ निम्नांकित विषयों से संबंधित स्कीम के समीक्षा की आवश्यकता नहीं होगी:-

- सात निश्चय कार्यक्रम-1 से संबंधित सभी स्कीम,
- सात निश्चय कार्यक्रम-2 से संबंधित सभी स्कीम,
- जल-जीवन-हरियाली से संबंधित सभी स्कीम,
- सभी प्रकार की पेयजल योजनाएं,

- (v) मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क/ग्रामीण पथ योजना,
- (vi) आपदा से संबंधित स्कीम/बाढ़ निरोधक योजना (जल संसाधन विभाग),
- (vii) पंचायत/नगर निकायों द्वारा संचालित योजनाएं,
- (viii) विभिन्न नगर निगम क्षेत्र में जल निकासी से संबंधित स्कीम,
- (ix) केन्द्र प्रायोजित स्कीम, केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम एवं वाह्य सम्पोषित स्कीम,
- (x) अनुरक्षण एवं मरम्मत से संबंधित स्कीम,
- (xi) विधि व्यवस्था से संबंधित स्कीम,
- (xii) Skill Development से संबंधित स्कीम,
- (xiii) उक्त क्रमांक-(i) से (xii) में वर्णित मूल स्कीम का Supporting स्कीम।

नोट:- मूल स्कीम के Supporting स्कीम का उदाहरण, यथा, भवन निर्मित हो, उसका Furniture, विद्युतीकरण, संपर्क सड़क तथा Transformer अधिष्ठापन आदि से संबंधित योजना। इसी प्रकार विधि-व्यवस्था के संधारण के लिए थाना भवन का निर्माण।

5. उपर्युक्त कंडिका-4 में वर्णित विषय से संबंधित स्कीम को छोड़कर अन्य सभी नई स्कीम, जिसकी अनुमानित लागत ₹15.00 करोड़ तक की हो, की समीक्षा हेतु उक्त कंडिका-1 में वर्णित समिति के समक्ष रखे जाएंगे तथा स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6. स्कीम स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा प्राप्त होने के उपरांत नई स्कीमों की स्वीकृति प्राधिकार वही होगा, जो वित्त विभागीय संकल्प संख्या-3758 दिनांक 31.05.2017 की कंडिका-4(क) में वर्णित है।

7. यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव (यथा, संकल्प निर्गत होने की तिथि) से दिनांक-31.03.2025 तक की विस्तारित अवधि में प्रभावी रहेगी।

8. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से,  
आनन्द किशोर,  
प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 1132-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>